

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त 2015—श्रावण 13, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4226-239-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 अगस्त 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १३ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ४ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१५ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ८५,९१,२१,२२,३०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये आठ हजार पांच सौ इक्क्यानवे करोड़ इक्कीस लाख बाईस हजार तीन सौ होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन			
	राजस्व	३७,२९,२०,१००	३८,४७,०००	३७,६७,६७,१००
	पूंजी	५३,९७,६०,०००	०	५३,९७,६०,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय			
	राजस्व	१,२१,६०,०००	०	१,२१,६०,०००
०३.	पुलिस			
	राजस्व	१,३३,७२,१२,०००	७५,००,०००	१,३४,४७,१२,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय			
	राजस्व	२७,००,००,०००	०	२७,००,००,०००
०५.	जेल			
	राजस्व	३,७७,५०,०००	०	३,७७,५०,०००
०६.	वित्त			
	राजस्व	१,७१,००,०००	०	१,७१,००,०००
०७.	वाणिज्यिक कर			
	राजस्व	१५,३०,००,०००	०	१५,३०,००,०००
१०.	वन			
	राजस्व	१,०२,७६,३९,१००	०	१,०२,७६,३९,१००
	पूंजी	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	१,६१,६५,७८,८००	२५,७६,०००	१,६१,९१,५४,८००
		पूँजी	४,५९,७३,०००	०	४,५९,७३,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	४,०४,२१,००,०००	०	४,०४,२१,००,०००
		पूँजी	२,०१,९१,००,१००	०	२,०१,९१,००,१००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	३०,७८,४६,५००	०	३०,७८,४६,५००
१४.	पशुपालन	राजस्व	३१,८५,००,१००	६,५८,०००	३१,९१,५८,१००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४१,५८,७८,०००	०	४१,५८,७८,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	१००	३,००,०००	३,००,१००
१७.	सहकारिता	राजस्व	६,००,२५,००,०००	०	६,००,२५,००,०००
१८.	श्रम	राजस्व	६०,९०,०००	०	६०,९०,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	२००	०	२००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	६,१५,६६,७५,७००	०	६,१५,६६,७५,७००
२३.	जल संसाधन	पूँजी	३,८०,००,००,०००	०	३,८०,००,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	२,२५,१०,००,१००	०	२,२५,१०,००,१००
	पूंजी	४,००,००,१५,०००	०	४,००,००,१५,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	७,५२,००,०००	०	७,५२,००,०००
	पूंजी	७,५०,००,०००	०	७,५०,००,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७३,१४,३१,३००	०	७३,१४,३१,३००
	पूंजी	१,२५,३३,५८,०००	०	१,२५,३३,५८,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	१,५२,८५,०००	०	१,५२,८५,०००
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	४५,८१,२०,४००	५,८३,००,१००	५१,६४,२०,५००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	५,१५,००,०००	०	५,१५,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१४,३७,४७,८००	०	१४,३७,४७,८००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१००	०	१००
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१,००,०००	०	१,००,०००
३६. परिवहन	राजस्व	७,५७,१८,१००	०	७,५७,१८,१००
	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३७. पर्यटन	राजस्व	१२,३०,३२,०००	०	१२,३०,३२,०००
	पूंजी	५०,९९,९२,०००	०	५०,९९,९२,०००
३८. आयुष	राजस्व	१०,१५,८१,०००	०	१०,१५,८१,०००
	पूंजी	२२,६२,०६,०००	०	२२,६२,०६,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३९. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,२६,११,६३,०००	०	२,२६,११,६३,०००
	पूंजी	१९,६२,२७,०००	०	१९,६२,२७,०००
४१. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना	राजस्व	१,६३,९८,१४,०००	०	१,६३,९८,१४,०००
	पूंजी	५,५२,५६,८७,०००	०	५,५२,५६,८७,०००
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल	पूंजी	२००	०	२००
४३. खेल और युवक कल्याण	राजस्व	१३,४२,००,०००	०	१३,४२,००,०००
४४. उच्च शिक्षा	राजस्व	१,६१,००,००,०००	०	१,६१,००,००,०००
	पूंजी	१३,८०,००,०००	०	१३,८०,००,०००
४५. लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	७०,००,००,०००	०	७०,००,००,०००
४६. विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	५,५०,००,०००	०	५,५०,००,०००
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	२२,१२,७५,१००	०	२२,१२,७५,१००
	पूंजी	५७,५९,५८,०००	०	५७,५९,५८,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१००	०	१००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	७३,८४,६९,०००	०	७३,८४,६९,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१५,५०,००,०००	०	१५,५०,००,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	५८,००,००,०००	०	५८,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५३.	अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	६७,८९,५००	०	६७,८९,५००
		पूँजी	५२,३९,२०,०००	०	५२,३९,२०,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	४,२८,००,०००	०	४,२८,००,०००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूँजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय.	पूँजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
६३.	अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	५,६७,०००	०	५,६७,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोगना	राजस्व	२,६८,३१,०७,०००	०	२,६८,३१,०७,०००
		पूँजी	४,५४,३७,६५,०००	०	४,५४,३७,६५,०००
६५.	विमानन	राजस्व	१४,००,०००	०	१४,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूँजी	१०,७८,००,०००	०	१०,७८,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व	४०,००,०००	०	४०,००,०००
		पूँजी	८,००,००,०००	०	८,००,००,०००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	४,४२,००,००,०००	०	४,४२,००,००,०००
		पूँजी	१,३१,००,००,०००	०	१,३१,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	१,४३,६८,०००	०	१,४३,६८,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	१,३७,३७,०००	०	१,३७,३७,०००
		पूंजी	४,०२,७७,०००	०	४,०२,७७,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	१२,८९,७८,८३,०००	०	१२,८९,७८,८३,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,८४,८१,७७,१००	०	४,८४,८१,७७,१००
		पूंजी	४४,८६,०००	०	४४,८६,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	९,५०,००,६००	०	९,५०,००,६००
योग {		राजस्व :	५९,००,३४,१६,७००	७,३१,८१,१००	५९,०७,६५,९७,८००
		पूंजी :	२६,८३,५५,२४,५००	०	२६,८३,५५,२४,५००
		वृहद-योग :	८५,८३,८९,४१,२००	७,३१,८१,१००	८५,९१,२१,२२,३००

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4227-239-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 13 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 13 OF 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 1st August, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th August, 2015.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidate Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2015.

Issue of Rs. 85,91,21,22,300 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. Eight Thousand Five Hundred Ninety One Crore Twenty One Lakhs Twenty Two Thousand Three Hundred towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
01.	General Administration			
	Revenue	37,29,20,100	38,47,000	37,67,67,100
	Capital	53,97,60,000	0	53,97,60,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	1,21,60,000	0	1,21,60,000
03.	Police			
	Revenue	1,33,72,12,000	75,00,000	1,34,47,12,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department.			
	Revenue	27,00,00,000	0	27,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
05. Jail	Revenue	3,77,50,000	0	3,77,50,000
06. Finance	Revenue	1,71,00,000	0	1,71,00,000
07. Commercial Tax	Revenue	15,30,00,000	0	15,30,00,000
10. Forest	Revenue	1,02,76,39,100	0	1,02,76,39,100
	Capital	100	0	100
11. Commerce, Industry and Employment	Revenue	1,61,65,78,800	25,76,000	1,61,91,54,800
	Capital	4,59,73,000	0	4,59,73,000
12. Energy	Revenue	4,04,21,00,000	0	4,04,21,00,000
	Capital	2,01,91,00,100	0	2,01,91,00,100
13. Formers Welfare and Agriculture Development	Revenue	30,78,46,500	0	30,78,46,500
14. Animal Husbandry	Revenue	31,85,00,100	6,58,000	31,91,58,100
15. Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	41,58,78,000	0	41,58,78,000
16. Fisheries	Revenue	100	3,00,000	3,00,100
17. Co-operation	Revenue	6,00,25,00,000	0	6,00,25,00,000
18. Labour	Revenue	60,90,000	0	60,90,000
19. Public Health and Family Welfare	Revenue	200	0	200
21. Public Services and Management	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
22.	Urban Development and Environment	Revenue	6,15,66,75,700	0	6,15,66,75,700
23.	Water Resources Department	Capital	3,80,00,00,000	0	3,80,00,00,000
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	2,25,10,00,100	0	2,25,10,00,100
		Capital	4,00,00,15,000	0	4,00,00,15,000
26.	Culture	Revenue	7,52,00,000	0	7,52,00,000
		Capital	7,50,00,000	0	7,50,00,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	73,14,31,300	0	73,14,31,300
		Capital	1,25,33,58,000	0	1,25,33,58,000
28.	State Legislature	Revenue	1,52,85,000	0	1,52,85,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	45,81,20,400	5,83,00,100	51,64,20,500
30.	Rural Development	Revenue	5,15,00,000	0	5,15,00,000
31.	Planning Economics and Statistics	Revenue	14,37,47,800	0	14,37,47,800
32.	Public Relations	Revenue	100	0	100
33.	Tribal Welfare	Revenue	1,00,000	0	1,00,000
36.	Transport	Revenue	7,57,18,100	0	7,57,18,100
		Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
37.	Tourism	Revenue	12,30,32,000	0	12,30,32,000
		Capital	50,99,92,000	0	50,99,92,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
38.	Ayoush	Revenue	10,15,81,000	0	10,15,81,000
		Capital	22,62,06,000	0	22,62,06,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	2,26,11,63,000	0	2,26,11,63,000
		Capital	19,62,27,000	0	19,62,27,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	1,63,98,14,000	0	1,63,98,14,000
		Capital	5,52,56,87,000	0	5,52,56,87,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	200	0	200
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	13,42,00,000	0	13,42,00,000
44.	Higher Education	Revenue	1,61,00,00,000	0	1,61,00,00,000
		Capital	13,80,00,000	0	13,80,00,000
45.	Minor Irrigation Works	Capital	70,00,00,000	0	70,00,00,000
46.	Science and Technology	Revenue	5,50,00,000	0	5,50,00,000
47.	Technical Education and Skill Development	Revenue	22,12,75,100	0	22,12,75,100
		Capital	57,59,58,000	0	57,59,58,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	100	0	100
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	73,84,69,000	0	73,84,69,000
51.	Religious Trusts and Endowments	Revenue	15,50,00,000	0	15,50,00,000
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions	Revenue	58,00,00,000	0	58,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
53.	Financial assistance to Urban bodies under Schedule Castes Sub-Plan	Revenue	25,00,00,000	0	25,00,00,000
54.	Agricultural Research and Education	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
55.	Women and Child Development	Revenue	67,89,500	0	67,89,500
		Capital	52,39,20,000	0	52,39,20,000
56.	Rural Industry	Revenue	4,28,00,000	0	4,28,00,000
57.	Externally Aided Projects Pertaining to Water Resources Department	Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
61.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package	Revenue	8,00,00,000	0	8,00,00,000
63.	Minority Welfare	Revenue	5,67,000	0	5,67,000
64.	Scheduled Castes Sub Plan.	Revenue	2,68,31,07,000	0	2,68,31,07,000
		Capital	4,54,37,65,000	0	4,54,37,65,000
65.	Aviation	Revenue	14,00,000	0	14,00,000
66.	Welfare of Backward Classes	Capital	10,78,00,000	0	10,78,00,000
67.	Public Works-Buildings	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
		Capital	8,00,00,000	0	8,00,00,000
71.	Expenditure pertaining to Shinmhast, 2016	Revenue	4,42,00,00,000	0	4,42,00,00,000
		Capital	1,31,00,00,000	0	1,31,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	1,43,68,000	0	1,43,68,000
73.	Medical Education Department			
	Revenue	1,37,37,000	0	1,37,37,000
	Capital	4,02,77,000	0	4,02,77,000
74.	Financial Assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	12,89,78,83,000	0	12,89,78,83,000
75.	Financial assistance to Urban bodies			
	Revenue	4,84,81,77,100	0	4,84,81,77,100
	Capital	44,86,000	0	44,86,000
77.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	9,50,00,600	0	9,50,00,600
Total :	Revenue :	59,00,34,16,700	7,31,81,100	59,07,65,97,800
	Capital :	26,83,55,24,500	0	26,83,55,24,500
	Grand Total :	85,83,89,41,200	7,31,81,100	85,91,21,22,300